



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
**Evening Session**

Q1. निम्नलिखित में से 'विनाश' का विलोम शब्द ढूँढें:

- A. विस्तृत  
B. सृजन  
C. निर्जीव  
D. अज्ञात

Q2. दिये गये शब्द का विलोम शब्द बताइये:  
कृतज्ञ

- A. कायर  
B. कृतघ्न  
C. अस्वीकार  
D. कर्कश

Q3. दिये गये शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइये:  
महीप

- A. सुता  
B. भूव  
C. पसंद  
D. दहन

Q4. दिये गये शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइये:  
असि

- A. करवाल  
B. सोम  
C. बयार  
D. हय

Q5. दिये गये शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइये:  
चमन

- A. बाग  
B. चक्षु  
C. प्रभु  
D. पाहन



## Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q6. दिये गये मुहावरे का सही अर्थ बताइये:  
शेर के दांत गिनना

- A. दुस्साहसपूर्ण काम करना  
B. सहायता करना  
C. साहसी होना  
D. दुखी होकर रोना

Q7. दिये गये मुहावरे का सही अर्थ बताइये:  
मुँह में पानी आना

- A. ललचा जाना  
B. जल्दी जल्दी खाना  
C. स्वादिष्ट खाना  
D. घबरा जाना

Q8. दिये गये एकवचन का बहुवचन बताइये:  
कलम

- A. कलमों  
B. कलमें  
C. कमलियाँ  
D. कलमाओं

Q9. दिये गये बहुवचन का एकवचन बताइये:  
छत्रियाँ

- A. छत्री  
B. छत्रो  
C. छात्रा  
D. छत्रे

Q10. दिये गये बहुवचन का एकवचन बताइये:  
गलियाँ

- A. गले  
B. गलो  
C. गली  
D. गाले



# Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

## Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Evening Session

Q11. Choose the word which best expresses the meaning of the given word:  
Revival

- A. Recover  
B. Bore  
C. Destroy  
D. Dull

Q12. Choose the word which best expresses the meaning of the given word:  
Acquit

- A. Accuse  
B. Hold  
C. Clear  
D. Convict

Q13. Choose the word which is opposite in meaning of the given word:  
Fodder

- A. Meal  
B. Corn  
C. Grass  
D. Bottle feed

Q14. Choose the word which is opposite in meaning of the given word:  
liable

- A. Irresponsible  
B. Dedicated  
C. Responsible  
D. Go getter

Q15. What is the meaning of the idiom:  
'It's raining cats and dogs '

- A. It's snowing  
B. It's raining heavily  
C. There is a storm  
D. There is an earthquake

Q16. What is the meaning of the term:  
'black sheep'

- A. A graceful person  
B. A disgraceful person  
C. A foolish person  
D. A gentleman



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q17. Select the grammatically correct option:

- A. Sushmita is proud of her medals. B. Sushmita is proud in her medals.  
C. Sushmita is proud at her medals. D. Sushmita is proud to her medals.

Q18. Select the grammatically correct option:

- A. They can play as well as we can. B. They can play as well as us can.  
C. They can play as well as them can. D. They can play as well as me can.

Q19. Select the grammatically correct option:

- A. Between you and I it is a bad idea. B. Between you and he it is a bad idea.  
C. Between you and she it is a bad idea. D. Between you and me it is a bad idea.

Q20. Prakash \_\_\_\_\_ at home for an hour but Jaya could not reach on time.

- A. is waiting B. will be waiting  
C. had been waiting D. has waited

Q21. Who was the 10<sup>th</sup> prime minister of India?

- A. Narasimha Rao B. Atal Bihari Vajpai  
C. Narendra Modi D. Manmohan Singh

Q21. भारत के 10 वें प्रधानमंत्री कौन थे?

- A. नरसिम्हा राव B. अटल बिहारी वाजपेई  
C. नरेंद्र मोदी D. मनमोहन सिंह

Q22. In which Indian state was the first female governor appointed?

- A. Madhya Pradesh B. Bihar  
C. Uttar Pradesh D. Rajasthan



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBN, UHBN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q22. भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी?

- A. मध्य प्रदेश  
B. बिहार  
C. उत्तर प्रदेश  
D. राजस्थान

Q23. What does a galvanometer measure?

- A. Wind pressure  
B. Water pressure  
C. Electric heat  
D. Electric current

Q23. गैल्वेनोमीटर क्या मापता है?

- A. हवा का दबाव  
B. पानी का दबाव  
C. विद्युत ताप  
D. विद्युत प्रवाह

Q24. What is the national tree of India?

- A. Banyan tree  
B. Peepal tree  
C. Neem tree  
D. Coconut tree

Q24. भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौनसा है?

- A. बरगद का पेड़  
B. पीपल का पेड़  
C. नीम का पेड़  
D. नारियल का पेड़

Q25. Among the following which city receives the maximum rainfall?

- A. Bhopal  
B. Lucknow  
C. Cherrapunji  
D. Delhi

Q25. निम्नलिखित में से किस शहर में अधिकतम वर्षा होती है?

- A. भोपाल  
B. लखनऊ  
C. चेरापूंजी  
D. दिल्ली



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q26. Among the following which Indian has won an oscar?

- A. Hrithik Roshan  
B. Madhuri Dixit  
C. Raju Hirani  
D. A.R. Rahman

Q26. निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक ऑस्कर जीता है?

- A. हृतिक रोशन  
B. माधुरी दिक्षित  
C. राजू हिरानी  
D. ए.आर. रहमान

Q27. Seismology is a study of which discipline?

- A. Radio waves  
B. Earthquakes  
C. Volcanoes  
D. Floods

Q27. सीस्मोलॉजी किस अनुशासन का अध्ययन है?

- A. रेडियो तरंगों का  
B. भूकंपों का  
C. ज्वालामुखियों का  
D. बाढ़ों का

Q28. What is article 17 in the constitution of India?

- A. LGBT rights  
B. Jammu & Kashmir legislature to define "permanent residents" of the state  
C. Abolition of untouchability  
D. Adultery

Q28. भारत के संविधान में अनुच्छेद 17 क्या है?

- A. LGBT अधिकार  
B. राज्य के "स्थायी निवासियों" को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर विधायिका  
C. अस्पृश्यता का उन्मूलन  
D. व्यभिचार

Q29. How many fundamental rights are there in India?

- A. 10  
B. 7  
C. 5  
D. 6



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q29. भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं?

- A. 10  
B. 7  
C. 5  
D. 6

Q30. How many judges are there in the supreme court till 18 September, 2019?

- A. 34  
B. 13  
C. 25  
D. 40

Q30. 18 सितंबर, 2019 तक, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश थे?

- A. 34  
B. 13  
C. 25  
D. 40

Q31. During the British Colonial period, Haryana was administered as a part of which province?

- A. Punjab  
B. Bengal  
C. Bombay  
D. Madras

Q31. ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान, हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रशासित किया गया था?

- A. पंजाब  
B. बंगाल  
C. बंबई  
D. मद्रास

Q32. Which of the following is a folk song of Haryana?

- A. Tamang Selo  
B. Mahiya  
C. Bahula  
D. Bara Masa

Q32. निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का लोक गीत है?

- A. तमांग सेलो  
B. माहिया  
C. बहुला  
D. बारा मासा



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q33. Haryanvi is originated from which script?

- A. Brahmi script  
B. Devanagari script  
C. Gupta script  
D. Kalinga script

Q33. हरियाणवी किस लिपि से उत्पन्न हुई है?

- A. ब्राह्मी लिपि  
B. देवनागरी लिपि  
C. गुप्त लिपि  
D. कलिंग लिपि

Q34. What is the atomic number of potassium?

- A. 20  
B. 19  
C. 18  
D. 17

Q34. पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है?

- A. 20  
B. 19  
C. 18  
D. 17

Q35. Which of the following is an airport in Haryana?

- A. Indira Gandhi airport  
B. Hisar airport  
C. Shivaji airport  
D. Begumpet airport

Q35. हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा है?

- A. इंदिरा गांधी एयरपोर्ट  
B. हिसार एयरपोर्ट  
C. शिवाजी हवाई अड्डा  
D. बेगमपेट हवाई अड्डा

Q36. In which of the following discipline Haryana is most famous for?

- A. Agriculture  
B. IT industries  
C. Sports  
D. Manufacturing





Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q36. निम्नलिखित में से किस अनुशासन में हरियाणा सबसे प्रसिद्ध है?

- A. कृषि  
B. आईटी उद्योग  
C. खेल  
D. विनिर्माण

Q37. Among the following which famous cricketer is from Haryana?

- A. Kapil Dev  
B. Sachin Tendulkar  
C. M.S. Dhoni  
D. Rohit Sharma

Q37. निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर हरियाणा का है?

- A. कपिल देव  
B. सचिन तेंडुलकर  
C. M.S. धोनी  
D. रोहित शर्मा

Q38. Haryana is known as the land of \_\_\_\_\_.

- A. rice  
B. rotis  
C. pulses  
D. fruits

Q38. हरियाणा को \_\_\_\_\_ की भूमि के रूप में जाना जाता है।

- A. चावल  
B. रोटी  
C. दालों  
D. फल

Q39. Which city is the financial capital of Haryana?

- A. Chandigarh  
B. Karnal  
C. Gurugram  
D. Ambala

Q39. हरियाणा की वित्तीय राजधानी कौन सा शहर है?

- A. चंडीगढ़  
B. करनाल  
C. गुरुग्राम  
D. अंबाला



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q40. Which was the famous battle fought in Haryana?

- A. Battle of Panipat  
B. Kalinga war  
C. Battle of Pullalur  
D. Battle of Koppam

Q40. हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी?

- A. पानीपत की लड़ाई  
B. कलिंग युद्ध  
C. पुल्ललुर की लड़ाई  
D. कोप्पम की लड़ाई

Q41. Which movement led to the formation of Haryana?

- A. Home Rule Movement  
B. Punjabi Suba Movement  
C. Khilafat Movement  
D. Civil Disobedience Movement

Q41. हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ?

- A. होम रूल मूवमेंट  
B. पंजाबी सूबा आंदोलन  
C. खिलाफत आंदोलन  
D. सविनय अवज्ञा आंदोलन

Q42. Which famous ancient poet is from Haryana?

- A. Rabindranath Tagore  
B. Mira Bai  
C. Kabir Das  
D. Surdas

Q42. हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध प्राचीन कवि हैं?

- A. रविंद्रनाथ टैगोर  
B. मीरा बाई  
C. कबीर दास  
D. सूरदास

Q43. Which famous writer from Haryana started the magazine Sandesh in hindi?

- A. Pt. Neki Ram Sharma  
B. Bagg Singh  
C. Bishambar Nath Kaushik  
D. Tulsi Ram Sharma



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q43. हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संध्या पत्रिका की शुरुआत की?

A. पंडित नेकी राम शर्मा

B. बग्ग सिंह

C. विशम्बर नाथ कौशिक

D. तुलसी राम शर्मा

Q44. Which is the only hill station in Haryana?

A. Manali

B. Ooty

C. Morni

D. Auli

Q44. हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है?

A. मनाली

B. ऊटी

C. मोरनी

D. ऑली

Q45. Among the following which is a dam in Haryana?

A. Vihar

B. Ottu Barrage

C. Tulshi

D. Ashti

Q45. हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है?

A. विहार

B. ओट्टू बैराज

C. तुलशी

D. अस्थि

Q46. Which is the largest lake in Haryana?

A. Sukhna Lake

B. Tilyar Lake

C. Damdama Lake

D. Surajkund Lake

Q46. हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है?

A. सुखना लेक

B. टिल्लर झील

C. दमदमा झील

D. सूरजकुंड झील



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q47. Which is Haryana's main seasonal river?

- A. Ghaggar River  
B. Yamuna River  
C. Ganga River  
D. Tangri River

Q47. हरियाणा की प्रमुख मौसमी नदी कौन सी है?

- A. घग्गर नदी  
B. यमुना नदी  
C. गंगा नदी  
D. टंगरी नदी

Q48. Which among the following is the heaviest metal according to its atomic mass?

- A. Iron  
B. Nickel  
C. Platinum  
D. Plutonium

Q48. निम्नलिखित में से कौन अपने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार सबसे भारी धातु है?

- A. लोहा  
B. निकल  
C. प्लैटिनम  
D. प्लूटोनियम

Q49. Who was the constitutional head of Haryana in 2019?

- A. Manohar Lal Khattar  
B. Dushyant Chautala  
C. Satyadev Narayan Arya  
D. Ranbir Singh Gangwa

Q49. 2019 में हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन था?

- A. मनोहर लाल खट्टर  
B. दुष्यंत चौटाला  
C. सत्यदेव नारायण आर्य  
D. रणबीर सिंह गंगवा

Q50. Who are responsible for the appointment of high court judges?

- A. President, chief justice of high court and the governor of state  
B. President, chief justice of supreme court and the governor of state  
C. President, chief justice of supreme court and the CM of state  
D. President, chief justice of high court and the CM of state



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q50. उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

A. राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल

B. राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल

C. राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री

D. राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के मुख्यमंत्री

Q51. What is the maximum number of ministers Haryana can have in the Legislative Assembly.

A. 14

B. 15

C. 20

D. 10

Q51. हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं?

A. 14

B. 15

C. 20

D. 10

Q52. Who is considered to be the architect of modern Haryana?

A. Om Prakash Chautala

B. Rao Birender Singh

C. Bhagwat Dayal Sharma

D. Bansi Lal Legha

Q52. आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है?

A. ओम प्रकाश चौटाला

B. राव बीरेंद्र सिंह

C. भागवत दयाल शर्मा

D. बंसी लाल लेघा

Q53. Where was Ashoka's pillar originally installed?

A. Ambala

B. Hisar

C. Panipat

D. Faridabad

Q53. अशोक का स्तंभ मूल रूप से कहाँ स्थापित किया गया था?

A. अंबाला

B. हिसार

C. पानीपत

D. फरीदाबाद



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q54. Among the following which is a mela/fair that takes place in Haryana?

- A. Khumbh Mela  
B. Sonapur Mela  
C. Gopal Mochan Fair  
D. Pushkar Fair

Q54. हरियाणा में लगने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है?

- A. कुंभ मेला  
B. सोनपुर मेला  
C. गोपाल मोचन मेला  
D. पुष्कर मेला

Q55. Haryana was originally a/an \_\_\_\_\_ state.

- A. Agrarian  
B. Industrial  
C. Mining  
D. Educational

Q55. हरियाणा मूल रूप से एक \_\_\_\_\_ राज्य था।

- A. कृषि  
B. औद्योगिक  
C. खनन  
D. शिक्षात्मक

Q56. Among the following which is the command used to 'select all' the text?

- A. Ctrl+p  
B. Ctrl+v  
C. Ctrl+a  
D. Ctrl+c

Q56. निम्नलिखित में से कौन सी कमांड का उपयोग सारे टेक्स्ट का चयन करने के लिए किया जाता है?

- A. Ctrl+p  
B. Ctrl+v  
C. Ctrl+a  
D. Ctrl+c

Q57. Which programming language is called the mother of programming languages?

- A. C++  
B. C  
C. Java  
D. COBOL



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q57. किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मां कहा जाता है?

- A. C++  
C. Java
- B. C**  
D. COBOL

Q58. What is an operating system?

- A. A program**  
C. A memory chip
- B. A hardware  
D. RAM

Q58. एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है?

- A. एक प्रोग्राम**  
C. एक मेमोरी चिप
- B. एक हार्डवेयर  
D. रैम

Q59. Which among the following is an amphibian?

- A. Tortoise  
C. Lizard
- B. Frog**  
D. Cockroach

Q59. निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर है?

- A. कछुआ  
C. छिपकली
- B. मेढक**  
D. तिलचट्टा

Q60. How many types of printers are there based on their printing techniques?

- A. 2  
C. 4
- B. 3**  
D. 1

Q60. मुद्रण तकनीक के आधार पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? ?

- A. 2  
C. 4
- B. 3**  
D. 1



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q61. What is the full form of 'CRT' in CRT monitor?

- A. Cathode Ray Test  
B. Collective Rays Tube  
C. Cathode Ray Tube  
D. Combined Ring Tube

Q61. CRT मॉनिटर में CRT 'का पूर्ण रूप क्या है?

- A. कैथोड रे टेस्ट  
B. कलेक्टिव रेज़ ट्यूब  
C. कैथोड रे ट्यूब  
D. कंबाइंड रिंग ट्यूब

Q62. Which type of internet connection is the cheapest?

- A. Dial up connection  
B. DSL connection  
C. Cable connection  
D. Wireless connection

Q62. किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सबसे सस्ता है?

- A. डायल - अप कनेक्शन  
B. डीएसएल कनेक्शन  
C. केबल कनेक्शन  
D. वायरलेस कनेक्शन

Q63. For which company powerpoint was originally made?

- A. Apple Macintosh  
B. Microsoft  
C. HP  
D. IBM

Q63. किस कंपनी के लिए पावरपॉइंट मूल रूप से बनाया गया था?

- A. एप्पल मैकिन्टोश  
B. माइक्रोसॉफ्ट  
C. HP  
D. IBM

Q64. Where will you find 'Fraction' in MS word?

- A. Symbol tool  
B. Equation tool  
C. Clip Art  
D. Cross-reference





Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q64. MS वर्ड में 'भिन्न' कहाँ से मिलेगा?

A. सिम्बोल टूल

B. इक्वेशन टूल

C. क्लिप आर्ट

D. क्रॉस रेफरेंस

Q65. What are sphygmomanometers used for?

A. To measure heart rate

B. To measure cholesterol

C. To measure blood sugar

D. To measure blood pressure

Q65. स्फिग्मोमेनोमीटर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं?

A. हृदय गति को मापने के लिए

B. कोलेस्ट्रॉल को मापने के लिए

C. रक्त शर्करा को मापने के लिए

D. रक्तचाप को मापने के लिए

Q66. Find the odd one out.

A. Zoology

B. Physics

C. Histology

D. Anatomy

Q66. विषम चुनें।

A. प्राणि विज्ञान

B. भौतिक विज्ञान

C. ऊतिकी

D. शरीर-रचना

Q67. PRATE: UWFYJ :: BAKER :?

A. GFPJW

B. FERWN

C. GFRKM

D. CRDSI

Q67. PRATE: UWFYJ :: BAKER :?

A. GFPJW

B. FERWN

C. GFRKM

D. CRDSI



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q68. 56, 54, 50, 48, 44, \_\_\_\_\_. what number should come next?

- A. 40  
B. 38  
C. 41  
D. 42

Q68. 56, 54, 50, 48, 44, \_\_\_\_\_. आगे क्या नंबर आना चाहिए?

- A. 40  
B. 38  
C. 41  
D. 42

Q69. Six persons A, B, C, P, Q and R, are sitting in a circular manner and are playing cards. There are two persons sitting exactly between A and Q. There are two persons sitting between P and C. Who is seated opposite to B?

- A. R  
B. C  
C. A  
D. Q

Q69. छह व्यक्ति A, B, C, P, Q और R, एक गोलाकार तरीके से बैठे हैं और कार्ड खेल रहे हैं। A और Q के ठीक बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। P और C के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। B के विपरीत कौन बैठा है?

- A. R  
B. C  
C. A  
D. Q

Q70. In certain code 'BEGIN' is written as 'MHFDA'. How will be 'TRUTH' written?

- A. GSTQS  
B. RHFVH  
C. SCRAC  
D. FPHYP

Q70. किसी कोड में 'BEGIN' को 'MHFDA' लिखा जाता है ? TRUTH कैसे लिखा जाएगा?

- A. GSTQS  
B. RHFVH  
C. SCRAC  
D. FPHYP

Q71. Five students are sitting in a row. Deepika is sitting on the immediate right of Kapil. Salman is not adjacent to Ranbir, Kareena or Kapil. Kapil is in the centre of the row. Ranbir is at one of the ends. Who is sitting at the immediate left of Kapil?

- A. Salman  
B. Kareena  
C. Ranbir  
D. Deepika



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q71. पांच छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं। दीपिका कपिल के एकदम दाहिनी ओर बैठी हैं। सलमान रणबीर, करीना या कपिल से सटे नहीं हैं। कपिल पंक्ति के केंद्र में है। रणबीर एक छोर पर हैं। कपिल के तत्काल बाएं कौन बैठा है?

- A. सलमान  
B. करीना  
C. रणबीर  
D. दीपिका

Q72. Amit goes 6 kms east from his home and then takes a right turn from a toy shop to move 8 kms to his school. What is the minimum distance from his home to school?

- A. 15 kms  
B. 10 kms  
C. 20 kms  
D. 25 kms

Q72. अमित अपने घर से 6 kms पूर्व में जाता है और फिर एक खिलौने की दुकान से अपने स्कूल की ओर 8 kms चलने के लिए एक दाहिनी ओर मुड़ता है। उसके घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी क्या है?

- A. 15 kms  
B. 10 kms  
C. 20 kms  
D. 25 kms

Q73. John moves North, then turns to his right and then again right and then finally right again. In which direction is he moving now?

- A. North  
B. West  
C. East  
D. South

Q73. जॉन उत्तर की ओर बढ़ता है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर और फिर अंत में फिर से सदाईं ओर मुड़ता है। वह अब किस दिशा में बढ़ रहा है?

- A. उत्तर  
B. पश्चिम  
C. पूर्व  
D. दक्षिण

Q74. M is the father of N, who is the brother of O, who is the mother of P. what is the relation between N and P?

- A. N is P's aunt  
B. N is P's uncle  
C. N is P's son  
D. N is P's nephew



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q74. M, N का पिता है, जो O का भाई है, जो P की माँ है। N और P के बीच क्या संबंध है?

A. N, P की मासी है

B. N, P का मामा है

C. N, P का पुत्र है

D. N, P का भतीजा है

Q75. A is the sister of B, who is the brother of C, who is the father of D who is the sister of E.  
What is the relation between B and E?

A. E is the son of B

B. E is the nephew of B

C. E is the daughter of B

D. E is the brother of B

Q75. A, B की बहन है, जो C का भाई है, जो D का पिता है, जो E की बहन है, B और E के बीच क्या संबंध है?

A. E, B का पुत्र है

B. E, B का भतीजा है

C. E, B की बेटी है

D. E, B का भाई है

Q76. Arrange the following names in alphabetical order.

1. Amira Jacob 2. Angelo D'souza 3. Faber Smith 4. Sam Miller

A. 1234

B. 3421

C. 2134

D. 1324

Q76. निम्नलिखित नामों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करें।

1. Amira Jacob 2. Angelo D'souza 3. Faber Smith 4. Sam Miller

A. 1234

B. 3421

C. 2134

D. 1324

Q77. How many 6's in the below series is preceded and followed by a number?

1 2 6 & 5 6 7 6 9 % 6 9 4 0 6 0 + 6 1 2 3 4 6 9 0 \* 8 7

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q77. नीचे दी गई श्रृंखला में कितने 6 एक संख्या के पहले और में बाद हैं?

1 2 6 & 5 6 7 6 9 % 6 9 4 0 6 0 + 6 1 2 3 4 6 9 0 \* 8 7

- A. 1 B. 2  
C. 3 D. 4

Q78. Arrange the dates in ascending chronological order?

1. 11- July-1987 2. 15- Aug- 1954 3. 20- Jan- 2001 4. 21 - Feb -2000

- A. 1234 B. 2143  
C. 2431 D. 1342

Q78. आरोही कालानुक्रमिक क्रम में तिथियों को व्यस्थित कीजिये?

1. 11- July-1987 2. 15- Aug- 1954 3. 20- Jan- 2001 4. 21 - Feb -2000

- A. 1234 B. 2143  
C. 2431 D. 1342

Q79. Arrange the dates in descending chronological order?

1. 21- Mar- 1982 2. 22- Mar- 1934 3. 30 - Jan- 2009 4. 13 - Sep- 1987

- A. 3214 B. 2143  
C. 3412 D. 2341

Q79. अवरोही कालानुक्रमिक क्रम में तिथियों को व्यस्थित कीजिये?

1. 21- Mar- 1982 2. 22- Mar- 1934 3. 30 - Jan- 2009 4. 13 - Sep- 1987

- A. 3214 B. 2143  
C. 3412 D. 2341



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBN, UHBN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q80. Identify the original address from the options given:

Hu, Ren-Liang  
Department of Biology  
Shanghai Normal University  
Shanghai 200062, China  
Tel. 577577 ex. 2705

A. Hu, Ren-Liang  
Department of Biology

Shanghai Normal University  
Shanghai 200051, China

Tel. 577577 ex. 2705

C. Hu, Ren-Liang  
Department of Biology

Shanghai Normally University  
Shanghai 20006, China

Tel. 577577 ex. 2705

B. Hu, Ren-Liang  
Department of Botony  
Shanghai Normal University  
Shanghai 2062, China  
Tel. 577577 ex. 2705

D. Hu, Ren-Liang  
Department of Biology  
Shanghai Normal University  
Shanghai 200062, China  
Tel. 577577 ex. 2705



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q80. दिए गए विकल्पों में से मूल पते को पहचानें:

हू, रेन-लियांग  
जीवविज्ञान विभाग  
शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी  
शंघाई 200062, चीन  
दूरभाष 577577 एक्सटेंशन 2705

A. हू, रेन-लियांग  
जीवविज्ञान विभाग  
शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी  
शंघाई 200051, चीन  
दूरभाष 577577 एक्सटेंशन 2705

C. हू, रेन-लियांग  
जीवविज्ञान विभाग  
शंघाई आम तौर पर विश्वविद्यालय  
शंघाई 20006, चीन  
दूरभाष 577577 पूर्व 2705

B. हू, रेन-लियांग  
वनस्पति विभाग  
शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी  
शंघाई 2062, चीन  
दूरभाष 577577 एक्सटेंशन 2705

D. हू, रेन-लियांग  
जीवविज्ञान विभाग  
शंघाई नॉर्मल यूनिवर्सिटी  
शंघाई 200062, चीन  
दूरभाष 577577 एक्सटेंशन 2705

Q81. What is the sum of squares of first 5 natural numbers?

- A. 56  
C. 60  
B. 55  
D. 45

Q81. पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है?

- A. 56  
C. 60  
B. 55  
D. 45

Q82. The cost price of an article is 18% of its selling price. What percent of the cost price is the selling price of the article?

- A. 555.56%  
C. 602.54%  
B. 250%  
D. 504%



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q82. एक वस्तु की लागत मूल्य इसकी बिक्री मूल्य का 18% है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितने प्रतिशत है?

- A. 555.56%  
B. 250%  
C. 602.54%  
D. 504%

Q83. Amit loses the selling price of 5 books on selling 35 books. His loss percentage is

- A. 10%  
B. 12%  
C. 15.5%  
D. 12.5%

Q83. अमित को 35 किताबों को बेचने पर 5 किताबों के विक्रय मूल्य की हानि हुई। उसका हानि प्रतिशत है

- A. 10%  
B. 12%  
C. 15.5%  
D. 12.5%

Q84. If the petrol prices are increased by 15% but its consumption is decreased by 15%, then the increase or decrease in the expenditure is by what percent?

- A. 5.25%  
B. 2.25%  
C. 4.25%  
D. 2.50%

Q84. यदि पेट्रोल की कीमतों में 15% की वृद्धि हुई है, लेकिन इसकी खपत में 15% की कमी हुई है, तो व्यय में वृद्धि या कमी किस प्रतिशत से हुई है?

- A. 5.25%  
B. 2.25%  
C. 4.25%  
D. 2.50%

Q85. Himanshu spends 70% of his income. His income is increased by 25% and he increases his expenditure by 15%. His savings are increased by how much percent?

- A. 42.5%  
B. 45.34%  
C. 50.5%  
D. 48.34%

Q85. हिमांशु अपनी आय का 70% खर्च करता है। उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है और वह अपने व्यय में 15% की वृद्धि करता है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है?

- A. 42.5%  
B. 45.34%  
C. 50.5%  
D. 48.34%





Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q86. Divide Rs. 600 between A and B in a ratio 7:3?

A. A = Rs. 420 and B = Rs. 180

B. A = Rs. 450 and B = Rs. 150

C. A = Rs. 480 and B = Rs. 120

D. A = Rs. 320 and B = Rs. 280

Q86. A और B के बीच 7: 3 के अनुपात में 600 रुपये विभाजित कीजिये?

A. A = रु. 420 और B = रु. 180

B. A = रु. 450 और B = रु. 150

C. A = रु. 480 और B = रु. 120

D. A = रु. 320 और B = रु. 280

Q87. Fourth proportional to 3, 15 and 27 will be?

A. 27/5

B. 135

C. 5/3

D. 215

Q87. 3, 15 और 27 का चतुर्थ अनुपाती होगा?

A. 27/5

B. 135

C. 5/3

D. 215

Q88. If the average of eight consecutive even numbers is 17 then find out the sum of third and sixth number.

A. 38

B. 34

C. 52

D. 26

Q88. यदि लगातार आठ संख्याओं का औसत 17 है तो तीसरी और छठी संख्या का योग ज्ञात कीजिए

A. 38

B. 34

C. 52

D. 26

Q89. In the first 10 overs of a cricket game, the run rate was only 2.5. What should be the run rate in the remaining 15 overs to reach the target of 151 runs?

A. 8.4

B. 7.9

C. 4.5

D. 8.9



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Evening Session**

Q89. क्रिकेट खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल 2.5 था। 151 रनों के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए शेष 15 ओवरों में रन रेट क्या होनी चाहिए?

A. 8.4

B. 7.9

C. 4.5

D. 8.9

Q90. Amit covers a distance at 75 km/hr and returns to the starting point at 50 km/hr. what is his average speed?

A. 64 km/hr

B. 56 km/hr

C. 60 km/hr

D. 54 km/hr

Q90. अमित 75 km/hr के हिसाब से एक दूरी तय करता है और 50 km/hr की दर से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। उसकी औसत गति क्या है?

A. 64 km/hr

B. 56 km/hr

C. 60 km/hr

D. 54 km/hr